

FIT INDIA PROGRAMME 18 मई 2020



एक दिन में 10000 कदम चलाने का लक्ष्य है।  
सकल लोग स्वस्थ रहें।  
18 मई 2020



स  
ज  
अरा  
करोना  
हुए वीर  
स्वयं से  
कार्य वि  
काले  
भी इस  
को रो  
अभि  
ने सा  
का प्र  
करने